



12<sup>th</sup> July 2023

#### Electronic Filing

National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051 Department of Corporate Services/Listing BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

NSE Symbol : APLAPOLLO

Scrip Code : 533758

Dear Sir/Madam,

#### Re: Newspaper Advertisement of Completion of Despatch of the notice of Postal Ballot

In continuation of our letter dated 11<sup>th</sup> July 2023 & pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Newspaper Advertisement, *inter-alia*, regarding completion of despatch of Notice of Postal Ballot of the Company.

We request you to kindly take the above information on your record.

Thanking you

Yours faithfully For APL Apollo Tubes Limited

Deepak C S Company Secretary M. No.: FCS-5060

Encl: a/a



#### भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड Container Corporation of India Ltd.

Tender No. CON/A-III/T/EIMWB-01/2023

TENDER NOTICE (E-Tendering Mode Only)

Online tenders in Single Bid system are invited for Supply, Installation, Testing and Commissioning of 01 No. Pitless Electronic in-motion Weigh Bridge of 140 MT capacity (as per RDSO specification No.WD-29-MISC-19 (Rev.-1)) including construction of weigh bridgehouse/console room in common entry line one at MMLP - Kadakola, Mysore on Turnkey Basis including CAMC.

Estimated Cost Rs. 37,00,000/- (inclusive of GST) 90 days for SITC and six years for AMC Period of the contract Rs. 74,000/- (through e-payment) Earnest Money Deposit Rs. 1000/- inclusive of all taxes and duties through e-payment Cost of Document Rs. 2,183/- (inclusive of 18% GST) through e-payment Non-refundable fender Processing Fee Date of Sale (Online) From 12/07/2023 at 16:00Hrs. to 01/08/2023 upto 17:00 Hrs. Date & Time of submission 02/08/2023 upto 13:00 Hrs.(E-Tendering Mode Only) Date & Time of Opening 03/08/2023 at 15:30 Hrs.

CONCOR reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons thereof For complete details log on to www.tenderwizard.com/CCIL. Further Corrigendum/Addendum to his tender, if any, will be published on said websites only. Sr. GM/Tech/Area-III

#### BHARAT NIDHI LIMITED CIN No. U51396DL1942PLC000644

Regd. Office: First Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002

Phone No. 011- 43562982, E-Mail ID:- bharatnidhi1@gmail.com NOTICE

Reg: Transfer of equity shares of the Company to Investor Education & Protection Fund (IEPF) Shareholders are hereby informed that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules) as amended from time to time, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for 7 (seven) consecutive years or more shall be transferred by the Company in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) in terms of IEPF Rules. Individual notices to respective shareholders have been sent at their latest available addresses in the

Company's records, inter alia, providing the details of shares liable to be transferred to IEPF for taking appropriate action. The due date of transfer of shares to the IEPF is November 2, 2023. The concerned shareholders are

requested to claim unclaimed dividend on or before November 2, 2023, failing which their shares shall be transferred to IEPF account without any further notice. The concerned shareholders would be entitled to claim the shares back from IEPF Authority by making

an application in e-form No. IEPF-5, as prescribed under the aforesaid rules and the same is available or

IEPF website i.e. www.iepf.gov.in. In case the shareholders have any queries wrt subject matter and IEPF Rules, they may send their queries to the Company at mail id: bharatnidhi1@gmail.com or can contact M/s Skyline Financia Services Private Limited (Registrar and Transfer Agent), D-153/A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I. New Delhi-110020, Phone: 011-40450193-97, email:parveen@skylinerta.com.

For Bharat Nidhi Limited Amita Gola - Company Secretary Date: July 11, 2023 Place: New Delhi ICSI Mem. No.: F5318



Date:- July 11, 2023

Place:- Mumbai

### KAYCEE INDUSTRIES LIMITED

REGD OFFICE:- Old Kamani Chambers, 32-ramjibhai Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai-400001, Website:- www.kayceei.ndustries.com

### Notice to Members

NOTICE is hereby given that the 80th Annual General Meeting (AGM) of Kaycee Industries Limited (the Company) will be held at 11:00 a.m. on Wednesday, August 09, 2023 through Video Conferencing (VC) /Other Audio Visual Means (CAVM) to transact the business contained in the notice dated Tuesday, May 09, 2023. The Company has sent the notice of the 80th AGM and Annual Report for the linancial year 2022-23 (FY23) on Tuesday, July 11, 2023 through electronic mode to members whose email addresses are registered with Depository Participant (DPs)/Registranand Share Transfer Agent (RTA), in accordance with the General Circular No. 14/2020 dated April 08 , 2020, Circular No.17/2020 dated Apri 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Allains to llowed by Circular No. SEBT/HD/CFD/CMD1/CTR/P/2020; 79dated 12th May, 2020 issued by the Searrities and Exchange Board of India ("SEBL").

The Annual Report for FY 23 and AGM not ice can also be down loaded from the following websites: Company: www.kayceeindustries.com, www.nsdt.com and Stock exchange: www.bseindia.com.

The Company is providing remale e-valing facility to all its members to cast their vale an all businesses ytilical a gnibi var q sebised mac.lbzn.gn itove.www.lo m roll pla finit ay-eeth d gu arth eoi tan ent in beni aln ao for voting by electronic means in the AGNs. The remotee-voting shall begin at August 05, 2023, Sunday at 9:00 AJM. [157] and end at August 08, 2023, Tuesday at 5:00 PJM. [157]. The remale e-voting shall be disabled by NSDL therealle c

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on August 3, 2023 being the art-oll date, shall be entitled to avail the lacility of remalee-valing/electronic valing in the AGML NSDL will be sending an e-mail with the USER ID and password to any person who has acquired shares and becomes a member of the Company after sending the notice to the members and holding shares as on the cut-off date of June 30, 2023. However if such a person is already registered with NSDL for e-voting then he /she can use the existing user ID and password to roasting the vale.

Those members whow ill present in the AGM through VC locility and had not cast their votes through remote e-valing will be provided e-valing lacility in the AGNr. Those members who had exercised their value Through remotee-voting may participate at the AGM but shall not be entitled to vote again.

Members may refer to the AGM. Notice for detailed instructions on remale e-valing, participation in the AGM, through VC/DAVM, submission of questions prior to AGM, registration as speaker at the AGM, evoling in the AGM and the frequently asked questions. The e-voling user manual is available at the downloads section of www.evoling.nsdl.com. In case of any queries or grievances relating to e-voling procedure, members may contact e-volling user manual for shareholders available at the down load section of www.evoling.nsdLcom or call on toll free not 1800-1020 990 or send a request to Ms. Son i Sing high evoling@nsdLoo.in.

For Kaycee Industries Limited

Mohil Dubey

Company Seare lary & Compliance Ollicer Membership Number ACS67363



### APL APOLLO TUBES LIMITED

Registered Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi -110092 Corporate Office: 36, Kaushambi, Near Anand Vihar Terminal, Delhi NCR - 201010 Phone No: +91-11-22373437, Fax No: +91-11-22373537

CIN: L74899DL1986PLC023443, Email: investors@aplapollo.com Website: www.aplapollo.com

### NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of section 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (cumulatively "Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification(s) or reenactment(s) thereof for the time being in force, APLApollo Tubes Limited ('the Company') is seeking approval from its Members for passing of Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated July 10, 2023 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("e-voting/remote e-voting").

In terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines issued by the by the Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, for conducting postal ballot through evoting vide General Circulars Nos. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020 10/2021 20/2021 3/2022 and 11/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 08, 2021, May 05, 2022 and December 28, 2022 respectively ("MCA Circulars"), the process of sending Postal Ballot Notice along with the instructions regarding remote e-voting through email to all those Members, whose email address is registered with the Company or with the Depositories/Depository Participants or M/s Abhipra Capital Ltd. ("R&TA") and whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on July 7, 2023 ("Cut-off Date"), has completed on July 11, 2023. The Notice is also available on Company's website (www.aplapollo.com), Stock Exchanges website (www.bseindia.comand www.nseindia.com) and Central Depository Services (India) Limited ('CDSL')'s website (www.evotingindia.com).

Members may also note that in compliance with the above MCA Circulars, the communication of assent/dissent of the members on the resolutions proposed in this notice will only take place through the remote e-voting system.

All the Members are hereby informed that:

Date: 11.07.2023

Place : Delhi .


- (a) The e-voting period commences on Wednesday, July 12, 2023 at 10:00 A.M and ends on Thursday, August 10, 2023 at 5:00 P.M. for all the shareholders, whether holding shares in physical form or in demat form. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, July 7, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
- The Notice is being sent to all the Members, whose names appear on the Register of Members/Record of depositories as on July 7, 2023. A person who is not a member on the cut-off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice as for information purposes only.
- The Company has appointed Shri Jatin Gupta, Practising Company Secretary (Membership No.: FCS 5651; COP No.: 5236), as scrutinizer for conducting the entire postal ballot process by way of remote e-voting in a fair and transparent manner.
- The results of the Postal Ballot/e-voting will be declared on or before August 12, 2023 The results alongwith scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company and on the website of the CDSL and communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

If you have not registered your email address with Company/Depository, you may please follow below instructions:

- Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name o shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (selfattested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company at investors@aplapollo.com and/or RTA email at
- Demat shareholders Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)

If you have any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no 1800225533. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL, ) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013.

For APL Apollo Tubes Limited Deepak C S



### **DUROPLY INDUSTRIES LIMITED**

NOTICE

CIN: L20211WB1957PLC023493 Registered Office: 9 Parsee Church Street, Kolkata - 700001 Corporate Office: North Block, 4th Floor, 113 Park Street, Kolkata - 700 016 Phone: +033-22652274 E-mail: corp@duroply.com | Website: www.duroply.in

Friday, August 11, 2023 at 11.00 AM (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and the rules made thereunder, read with General Circulars No. 14/2020, No. 17/2020, No. 20/2020, No. 02/2021, No.02/2022 and No. 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter, collectively referred to as the "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "Listing Regulations") read with the SEBI Circulars No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/ CMD2/ CIR/P/2022/62 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 respectively issued by SEBI (hereinafter, collectively referred as the SEBI Circulars), to transact the business set out in the Notice convening the 66th

 In accordance with the aforesaid Circulars, the Notice convening the 66th AGM alongwith the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2023, will be sent only by e-mail to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participants / Registrar and Share Transfer Agent (the "RTA") i.e., M/s. Maheshwari Datamatics Private Limited. The instructions for joining the AGM through VC or OAVM and the manner of taking part in the e-Voting process will be provided alongwith the Notice and the Annual Report.

 Members holding shares in physical mode or whose e-mail addresses are not registered, may cast their votes through e-Voting system, after registering their e-mail addresses by sending the following documents to the Company at investors@duroply.com or to the RTA at mdpldc@yahoo.com

2. Self-attested scanned copy of PAN CARD; and

of the Member as registered against their shareholding. Members holding shares in the demat mode should update their e-mail addresses directly with their respectively Depositary Participants

D. Pursuant to Section 91 of the Act and Rule 10 of the Companies (Management

and Administration) Rules, 2014 (as amended) read with Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, August 5, 2023 to Friday, August 11, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual

Company viz., www.duroply.in and also on the website of the BSE Limited, where Equity Shares of the Company are listed, viz., www.bseindia.com The Notice will be also disseminated on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com

> (KOMAL DHRUV) Company Secretary



Place: Kolkata

Date: July 11, 2023

#### BOMBAY CYCLE & MOTOR AGENCY LIMITED Regd. Off: 534, S.V.P. Road, Opera House.

Website: www.bcma.in. NOTICE OF 104TH ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE is hereby given that the 104th Annual General Meeting (AGM) of Bombay Cycle & Motor

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and all subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022, permitted the holding of AGM through VC or OAVM without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these circulars and the relevant provisions of the Companies Act,

The Notice of the AGM along with the Annual Report for FY 22-23 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories in 2021, May 13, 2022 and January 05, 2023.

FY 22-23 will also be available on the Company's website <a href="https://www.bcma.in">www.bcma.in</a>, website of the Stock Exchange where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited www.bseindia.com and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM are

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Those members who shall be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the AGM.

Only those members whose email addresses are registered in the Register of Members maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Friday, July 28, 2023, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the AGM.

will be sent on your registered email address. The Company has fixed Friday, July 21, 2023 as the 'Record Date 'for determining entitlement of

members to final dividend for FY 22-23, if approved at the AGM. The details of remote e-voting are given below:

- August 03, 2023 (5.00 pm). The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
- of the Company as of the record date i.e. Friday, July 28, 2023. Once a vote is cast by the Member, he/ she shall not be allowed to change it subsequently. Any person who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after July 11,
- Transfer Agent at csg-unit@tcplindia.co.in or to NSDL at helpdesk.evoting@nsdl.co.in. As per the provisions of the Income Tax Act, dividend income is taxable in the hands of shareholders and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the

In the event the Company is unable to pay dividend to its shareholder(s) by electronic mode due to non-registration of their Bank Account(s), the Company shall dispatch Dividend Warrant' Demand Draft/ Pay order to such shareholder(s) at the earliest.

For Bombay Cycle & Motor Agency Ltd.,

Place: Mumbai

### [Formerly - DPSC Limited] CIN: L40105WB1919PLC003263

Salt Lake City, Kolkata -700 091 Tel.: + 91 33 6609 4300/08/09/10, Fax: + 91 33 2357 2452 E: corporate@indiapower.com W: www.indiapower.com

#### **NOTICE TO SHAREHOLDERS** Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as

The dividend declared during the financial year 2015-16, which remained unpaid or unclaimed for a period of seven years is due for credit to the IEPF account on 14th October, 2023. The corresponding shares on which dividend was unpaid or unclaimed for seven consecutive years will also be transferred to the IEPF Authority as per the procedure set out in the Rules. The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is a specific order of Court/Tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are hypothecated/ pledged under the Depositories Act, 1996.

dividend and the shares liable to be transferred to IEPF are also made available on the Company's Website www.indiapower.com. Shareholders are requested to claim the dividend declared during the financial year 2015-16 and onwards before the same is transferred to the IEPF i.e. on or before 14th October, 2023. The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the new share certificate(s) into Demat form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details made available by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before 7th October, 2023, the Company with a view to adhering with the requirements of the Rules, transfer the dividend to IEPF by the due date i.e. 14th, October, 2023. The corresponding shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years shall also be transferred by the due date i.e. 14th, October, 2023 without any further notice.

dividend amount and shares transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules available at www.iepf.gov.in. A copy of this notice shall be made available on the website of the Company

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company at corporate@indiapower.com or Registrar and Share Transfer Agent of the Company, M/s. C B Management Services (P) Ltd. at P-22, Bondel Road, Kolkata 700 019, Tel: 033-4011 6700/6724, Fax:

033-40116739, Email: rta@cbmsl.com

Place : Kolkata

For India Power Corporation Limited

Company Secretary

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. (श्वरत सरकार का नवरान उपक्रम - A Navratna Govt. of India Undertaking) CONCOR CONCOR Bhawan, C-3 Mathura Road, Opposite Apollo Hospital, New Delhi - 110 076

Bid Reference

Open Tender Notice (e-Tendering mode only) Online Open E-bids are invited through two packet Open tendering system from the RDSO approve sources for supply of 3475 nos. Low Weight Low Height 25T axle load bogie (LWLH 25) & its components for 25 Taxle load wagons to RDSO specification No WD-40-LWLH 25 Bogie (\* K-Class)-2015 with latest revision and drawing no. WD-15021-S/02 Alt 4 or latest.

CON/T/BLCS/BOGIE/e77057/2023

1	Tendered Quantity	3475 nos.
2	Bid Security (Earnest Money) Deposit	₹ 10,00,000/- (Ten Lakhs Only)
3	Cost of Document (Non-refundable	₹ 1,000 through online payment gateway to CONCOR
4	Tender processing fee (Non-refundable)	* 4720.00 (including GST @18%) Through online payment gateway to CONCOR.
5	Pre-Bid Meeting	Through Video Conference on 19thJULY 2023 at 11:30hrs IST. For sharing the link please send mail on EMAIL ID :-akmishra@concorindia.com upto 10:00 hrs of 19thJULY 2023 ( IST)
6	Period of Tender Sale (online)	12.07.2023 at 15:00 hrs to 01.08.2023 at 15:00 hrs.
7	Date and time of Submission of of Bid	01.08.2023 at 16:00 hrs
8	Date and time of opening of Bid	02.08.2023 at 11:00 hrs
9	Place of Opening & Communication Address	ED/P&S/AREA-III, Container Corporation of India Ltd NSIC, MDBP Building,3rd Floor, Okhla Industrial Estate Opp. NSIC Okhla Metro Station, New Delhi-110020 email: akmishra@concorindia.com

otice available on website tenderwizard.com/CCIL, concorindia.co.in & eprocure.gov.in. Furthe Corrigendum/Addendum to this tender, if any, will be published on said websites only. Newspaper presadvertisement shall not be issued for the same. ED/P&S/Area-III

#### CIN: L74999MH1999PLC013394 Regd.Office: Thergaon, Chinchwad, Pune-411033 Tel:+91-20-40773333, Fax:91-20-40773388 E-mail: admin@3pland.com, Website: www.3pland.com

3P LAND HOLDINGS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATES. The 58" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of 3P Land Holdings Limited ("Company") will be held on Saturday, 05" August, 2023 at 10:00 a.m.

(IST) through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") without physical presence of the Members at a Common Venue, to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated 13th May, 2023. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company which shall be the deemed venue of the AGM. Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-2023 has already been sent

on 11" July, 2023 through electronic mode to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) in compliance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022, read with General Circular Nos. 02/2022 dated 05" May, 2022, 20/2020 dated 05" May, 2020, 02/2021 dated 13" January, 2021. 19/2021 dated 08" December, 2021 and 21/2021 dated 14" December, 2021 (Collectively referred to as "the MCA Circulars") and Securities Exchange Board of India ("SEBI") Circulars dated 05" January, 2023 read with circulars dated 13" May, 2022, 15" January, 2021 and 12" May, 2020 (Collectively referred to as "the SEBI Circulars"). The Notice of AGM along with the Annual Report 2022-2023 is also available and can be downloaded from the Company's website at www.3pland.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 28" July, 2023 to 05<sup>th</sup> August, 2023 (both days inclusive).

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote electronically through e-voting services provided by National Securities Depository Limited on all the resolutions set forth in the Notice dated 13" May, 2023. The details are given hereunder:

- Date of completion of sending Notice of AGM and Annual Report-2022-2023 through e-mail: 11" July, 2023;
- 2. The date and Time of commencement of remote e-voting: Wednesday, the 02<sup>™</sup> August, 2023 at 9:00 a.m. (IST); The date and Time of end of remote e-voting: Friday the 04" August, 2023 at
- 5:00 p.m. (IST) and the facility shall be forthwith blocked; The cut-off date for determining the eligibility to vote is 28" July, 2023;
- 5. Any person holding shares in physical form and non individual shareholders. who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of Annual General Meeting through email and holding shares as of the cut-off date i.e. 28" July, 2023, may obtain the Login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. Individual shareholders holding securities in demat mode and who acquires shares of the Company

after dispatch of notice and holding shares as on cut off date i.e. 28" July, 2023

may follow steps mentioned in the Notice of the AGM under "Access to NSDL

e-Voting System" Members may note that:

Nidhi Agarwal

- The facility for casting the vote through e-voting will be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not casted their vote by means of remote e-voting may cast their vote through e-voting at the time of
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through 'VC'/'OAVM' but shall not be entitled to cast their vote again;
- a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting
- In case of any queries relating to remote e-voting or e-voting at AGM or attendance at AGM through 'VC'/'OAVM' may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free No.:022-488670000 / 022-24997000 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

For 3P LAND HOLDINGS LTD.

Place: Pune Date: 12" July, 2023

J. W. Patil Company Secretary

## ■ KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

AMRUT 2.0-Improvements to AUWSS at Chalakudy Municipality EMD: Rs. 2,00,000/- Tender fee: Rs. 11800/- Last Date for submitting Tenders 24-07-2023 03:00:pm Phone: 0487-2423230

www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in Superintending Engineer PH Circle KWA-JB-GL-6-641-2023-24 Thrissu

WELSPUN CORP LIMITED WELSPUN CORP Regd. Office: Welspun City. Village Versamedi, Taluta Anjar, Dist. Kutch. Gujarat 370110.

### Tel No. +912836 662222 Fax : +912836 279060.

Comp. Office: Welspun House, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel. Mumbai-400013, Tel No. 022 - 2490 8000, Fax: 022 - 2490 8020 CompanySecretary\_WCL@welspun.com\_www.welspuncorp.com

### NOTICE

(For the Attention of Equity Shareholders of the Company) Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Demat Account of the Investor Education and Protection Fund Authority NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companie

Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund ) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended from time to time, tha the Company is mandated to transfer all the shares in respect of which dividends have no been claumed for seven consecutive years or more, in the name of Investor Education and Profession Fund ("IEPF") In compliance with the said Rules, the Company is communicating individually to the concerned shareholders, whose shares are liable to be fransferred to the Demat account

of IEPF Authority, at their latest available address in the Company records. The Company

has also uploaded on its website www.welspuncorp.com, the defail of such shareholders whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority. The Company shall take necessary steps to transfer the concerned shares held by suich shareholders to the Dema: account of the IE PFAuthority within 30 days from the due date (i.e. October 29, 2023). If may be noted that no claim shall lie against the Company in respect of the shares and dividends thereof credited to the account of the IEPF Authority. On trainsfer of the dividends and the shares to the IEPF Authority, the shareholder may however darm the same by making an application to the IEPF Authority in IEPF Form - 5, as prescribed under the afore said Rules which is available on the IEPF website, i.e. www.iepf.gov.in.

j) Company's RTA, Link Intime India Private Limited, C 101, 247 Park, L.B.S.Marg Viktuoli [West], Mumbai - 400083. Tel. No. 022- 49186270 / 49186260, e-mail rnf.helpdesk@linknfime.co.in;

For further information /dan fication, shareholders may write or contact to:

ir) Secretanal Department of the Company at Weispurr House, 5th Roor, Kamala Milis Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Tel. 022-6613 6000, e-mail: CS\_WCL@welspun.com; or

ini) Registered Office of the Company at Welspun City, Village Versalmedii, Taluika Anjan Dist. Kutch, Gujarat-370110. For Welspun Corp Limited

Pradeep Josh Place: Mumbar Company Secretary Date: July 11, 2023 FC5-4959

#### XPRO INDIA LIMITED CIN: L25209WB1997PLC085972

Registered Office: Barjora Mejia Road, P.O. - Ghutgoria, Tehsil - Barjora, Dist. Bankura, West Bengal - 722 202 Tel.: 91-9775301701, Email: cosec@xproindia.com; Website: www.xproindia.com

Members of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on Thursday, August 10, 2023 at 10.30 A.M. (IST) to transact the Business set out in the Notice of the 26th AGM dated May 22, 2023. The Notice convening the 26th AGM and Annual Report for the year 2022-23 in electronic mode have been sent to all the members whose e-mail ids are registered with the Company/Depository Participant(s) in conformity with the regulatory requirements. The date of completion of dispatch

NOTICE is hereby given that the TWENTY SIXTH Annual General Meeting (AGM) of the

of the Notices in permitted mode(s) is July 11, 2023. The Annual Report for the year 2022-23 and the Notice of 26th AGM are also available on the Company's website www.xproindia.com, on the website of the Stock Exchanges at www.nseindia.com & ww.bseindia.com and on CDSL website www.evotingindia.com The Company has provided its Members the facility to cast their vote electronically on all the Resolutions set out in the Notice through remote e-voting (facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose services of Central Depository Services India) Limited (CDSL) have been engaged by the Company. The remote e-voting period commences on Monday, August 7, 2023 (9 a.m.) and ends on Wednesday, August 9, 2023

(5 p.m.) after which the voting portal will be disabled by the Depository and no voting shall be allowed. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual for members available at https://www.evotingindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL helpdesk on telephone number: 022-23058542/43. A member may participate in the AGM through VC/OAVM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. A Member who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and has not cast his/her

vote on the Resolutions through remote e-voting and is otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting, e-voting during the time of AGM and participation

in the AGM through VC/OAVM is provided in the Notice of the 26th AGM A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by our RTA as on the cut-off date, i.e., Thursday, August 3, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting during the AGM.

A person who has become member of the Company post dispatch of the notice of the AGM and

ontinue to hold shares on the cut-off date can electronically vote on CDSL platform, if he is

already registered with CDSL by using his existing user id and password or contact CDSL on above mentioned toll free no. or by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com Members are requested to carefully read the notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM. NOTICE of Book Closure for the purpose of Dividend & Annual General Meeting The Board of Directors at their Meeting held on May 22, 2023 recommended a Dividend of Rs.

the approval of shareholders of the Company. In this regard, pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 4, 2023 to August 10, 2023 (both days inclusive) for the purpose of

2.00 per Equity Share of Rs. 10/- each for the financial year ended March 31, 2023, subject to

the 26th AGM and also for determining the eligibility for payment of Dividend, if approved by the The Dividend will be paid within 30 days from the conclusion of the AGM, to the shareholders whose names appear on the Company's Register of Members or in the records of the Depositories

as Beneficial Owners, as at the end of business hours on Thursday, August 3, 2023, i.e. the date prior to the commencement of book closure. Payment of Dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have registered their bank account details with the Company/Depositories. Dividend Warrants will be dispatched to the registered address of the shareholders who have not registered their bank

Shareholders are informed that in terms of the provisions of the Finance Act 2020, dividend paid or distributed on or after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholder and such

payment of Dividend will be subject to deduction of tax at source at applicable rates. By order of the Board Place: Kolkata Kamal Kishor Sewoda Dated: July 11, 2023 Company Secretary

### **Bank of India Mutual Fund**

(Formerly BOI AXA Mutual Fund)

CIN: U65900MH2007FTC173079

(Investment Manager: Bank of India Investment Managers Private Limited) (Formerly BOI Star Investment Managers Private Limited) (Formerly BOI AXA Investment Managers Private Limited) Registered Office: B/204, Tower 1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013,



### NOTICE NO. 04/2023-24

### ANNOUNCEMENT OF RESULT OF POSTAL BALLOT/ELECTRONIC VOTING:

Notice is hereby given to the Unit holders of Bank of India Mutual Fund ("the Fund") that the Bank of India Trustee Services Private Limited, Trustees to Bank of India Mutual Fund ("the Fund") had sought approval from unitholders to amend the Trust deed of Bank of India Mutual Fund to change the provision related to Trustee fees ("Proposed Change") vide letter dated June 05, 2023. A Notice dated June 02, 2023 was also released in the newspapers in this respect.

Unitholders are further requested to note that M/s Umashankar K Hegde, Practicing Company Secretary was appointed as scrutinizer to provide certification on the voting process through postal ballot and electronic voting conducted for the Proposed Change.

The Scrutinizer has presented the following results of postal ballot/electronic voting:

Particulars	No. of Unit holders	Total No of Units	% (in terms of units)
Total Eligible Unitholders	323622	1,277,964,399.514	100.00
Total Votes	104	2,111,551.275	100.00
Votes casted – In favour	46	1,907,092.162	90.32
Votes casted – Against	58	204,459.113	9.68
	Total Eligible Unitholders  Total Votes  Votes casted – In favour	Total Eligible Unitholders 323622  Total Votes 104  Votes casted – In favour 46	Total Eligible Unitholders         323622         1,277,964,399.514           Total Votes         104         2,111,551.275           Votes casted – In favour         46         1,907,092.162

As the valid votes received from Unitholders in favour of the proposal is more than 50% as per the aforementioned table, such change is hereby declared as duly approved by requisite majority of the unitholders of the Fund.

New Delhi

For Bank of India Investment Managers Private Limited (Formerly BOI Star Investment Managers Private Limited) (Formerly BOI AXA Investment Managers Private Limited)

(Investment Manager for Bank of India Mutual Fund) (Formerly BOI AXA Mutual Fund)

> Sd/-Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Date : 11.07.2023 (Company Secretary) financialexp.epapr.in 

Notice is hereby given that the 66th Annual General Meeting ("AGM") of the

Members of Duroply Industries Limited (the "Company") will be held on

 Scanned Copy of a signed request letter, mentioning name, folio number. DP ID and Client ID & number of shares held and complete postal address;

Self-attested scanned copy of any document (such as AADHAAR CARD / Voter ID Card / Passport / Driving License) in support of the postal address

Members who hold shares in physical mode and who already have valid e-mail addresses registered with the Company / the RTA need not take any

E. The Notice and the Annual Report shall be available on the website of the

For Duroply Industries Limited

2013, the AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

Mumbai - 400 007. CIN: L74999MH1919PLC000557 Tel.: (022) 23612195/96/97 E-mail: investors@bcma.in

("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM.

Agency Limited will be held on Friday, August 04, 2023 at 04:00 pm, through Video Conferencing

accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars dated May 12, 2020, January 15, The requirements of sending Physical copy of the Notice of the 104th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. The Annual Report for

Remote e-voting facility is provided to the members to cast their votes on any of the resolutions set out in the notice of the AGM. Additionally, the Company is providing facility of e-voting during the AGM.

If your email address is already registered with the Company / Depositories, login details for e-voting

The remote e-voting will commence on Tuesday August 01, 2023 (9.00 am) and end on Thursday, The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up share capital

i.e. Friday, July 28, 2023, he/ she may obtain the login details by writing to the Registrar and Share prescribed rates applicable from time to time. The Company has explained the provisions of Tax on

2023 i.e. cut-off date for dispatch of the Notice and eventually holds shares as on the cut-off date

dividend in the Notice of the Annual General Meeting.

Company Secretary & Compliance Officer INDIA POWER India Power Corporation Limited

Registered Office: Plot No. X1- 2&3, Block-EP, Sector-V

amended from time to time ("the Rules").

In compliance to the said Rules, the Company has send individual communication to the concerned shareholders and the details of the shareholders, unencashed

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed

and on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e. www.nseindia.com and www.msei.in.

Prashant Kapoor

ACS15576

Place: Mumbai

Date : July 11, 2023



पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 कोनः 011-41732000 फेक्स: 011-26230201 वेबसाइटः www.ifciltd.com CIN: L74899DL1993GOI053677



आईएफसीआई लि. द्वारा "स्विस चैलेंज मैथड" के आधार पर वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री आईएफसीआई लि. निम्नलिखित अलामकारी परिसम्पत्ति की बिक्री / अन्तरण के लिए भारतीय

निविदा संख्याः आईएफसीआई/एवओ/एमएण्डआर/07/2023-24, दिनांक 12/07/2023

	नियामक ढांचे के अधीन प व आमंत्रित करता है:	ात्र बैंकों / वित्तीय संस्व	याओं / एनबीएफ	सीज / एआरसीऽ
खाते का	बकाया राशि	विध्यमान प्रस्ताव	बिक्री के	ईएमडी
नाम	(करोड़ रुपए में)	(करोड़ रुपए में)	निबन्धन	(करोड़ रुपए

खाते का नाम	बकाया राशि (करोड़ रुपए में) (15/06/2023 कों)	विध्यमान प्रस्ताव (करोड़ रुपए में)	बिक्री के निबन्धन	ईएमडी (करोड़ रुपए में)
अंसल हाउसिंग लिमिटेड (ए एच एल)	156.23	56.70 करोड़ रुपए^	नगद और एसआर या 100% नगद के आधार पर	5.67

- प्रस्ताव विवरण (नकद और एसआर आधार पर) इस प्रकार हैं–
- आईएफसीआई को 20.575 करोड़ रुपये का नकद अग्रिम भूगतान किया जाएगा।
- एआरसी को 14.20 करोड़ रुपये के एसआर (श्रृंखला ए) और 6.375 करोड़ रुपये (श्रृंखला बी) वे
- आईएफसीआई को 36.125 करोड़ रुपये (श्रृंखला बी) के एसआर जारी किए जाएंगे।
- श्रृंखला ए एसआर को प्राथमिकता के तौर पर सीरीज बी एसआर पर 20% की दर से ब्याज के साथ
- सीरीज ए और बी पर 4% प्रबंधन शुल्क + जीएसटी लाग् है।

- 100% नकद आधार की बोली / प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाएगी।

- प्रतिभूति उपलब्धः

- क यमनानगर परियोजना की 113.27 एकड़ भूमि
- ख अमृतसर परियोजना की 68.56 एकड भूमि (इसमें से केवल 51.92 एकड सीएलयू भूमि है)
- श्री दीपक अंसल (स्वर्गवासी) और श्री कुशाग्र अंसल की व्यक्तिगत गारंटी। मृतधन और ब्याज भृगतान के लिए पीडीसीज।

नीलामी "रिवस चैलेंज मैथड" के अंतर्गत मौजुदा प्रस्ताव के आधार पर है, जिसमे मौजुदा प्रस्तावक को उच्चतम बोली से मिलान करने का अधिकार होगा।

निविदा दस्तायेज तथा विस्तृत निबंधन व शर्ते हमारी वेबसाइट (https://www.ifciltd.com) Tenders→Sale of properties→NPA शीर्ष के अधीन अपलोड की गई हैं। रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 19/07/2023 है। ई-नीलामी 07 / 08 / 2023 तारीख को होगी।

निविदा से सम्बन्धित सभी शुद्धि—पत्र / परिशिष्ट / आशोधन / समय वृद्धि की सूचना / स्पष्टीकरण आदि, यदि कोइ हों, तो केवल वेबसाइट (https://www.ifciltd.com) पर उपलब्ध होंगे। टिप्पणी: आईएफसीआई के पास सभी अथवा किसी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए, चाहे वह कुछ भी क्यों न हो पूर्णत: अथवा अंशत: अरवीकार करने का अधिकार आरक्षित है

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 12/07/2023 महाप्रबन्धक (एमएण्डआर)



### एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिभिटेड

वंजीकृत कार्यालयः ३७, हरमोविन्द एन्क्लेव, विकास मार्म, दिल्ली-110092 विगमित कार्यालयः ३६, कौशांबी, भावंद विहार टर्मिवल के वास, दिल्ली एवसीभार - 201010 फीन नं. : 91-11-22373437, फैक्स नं. 91-11-22373537,

सीआईएनः L74899 DL 1986PLC023443 \$-मेलः investors@aplapollo.com, रेजसाइटः www.aplapollo.com

पोस्टल बैलेट की सूचना

सररयों को एतद्वारा सुवित्त किया जाता है कि धारा 108 और 110 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम | 2013 के अन्य लाग् प्रावधानों कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (संवयी रूप से "अधिनियम") रोबी (सूर्योबञ्जता दाक्तिव और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 ("सूर्योबञ्जता विनियम") भारतीय कंपनी सविव संस्थान इ.स. जारी सविवीय पानक-2 और वर्तपान में अन्य लागू कानून और विनियम यदि कोई हो जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पून अधिनियमन शामिल हैं के अनुसार एपीएल अपोलो टच्च्य लिपिटेड(कंपनी) इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग केवल ('ई-बोटिंग/रिपोट ई-बोटिंग') के पाध्यप से दिनांक 10 जुलाई 2023 के पोस्टल बैलेट नोटिस ['पोस्टल बैलट नोटिस'] में निर्धारित प्रस्तावों को पारित करके अपने सदरयों से अनुमोदन मांग रही है।

अधिनियम के प्रारोगिक प्रावधानों के अनुसार और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020 17/2020 22/2020 33/2020 3942020 10/2021 20/2021 3/2022 एवं 11/2022 क्रमश दिनांक 8 अप्रैल 2020 13 अप्रैल 2020 15 जन 2020 28 सितंबर 2020 31 दिसंबर 2020 23 जन 2021 8 रिसंबर 20215 मई 2022 एवं 28 रिसंबर 2022 ("एमसीए परिपन्न") के माध्यम से ई-वॉटिंग के पाध्यम से पोस्टल बैलेट आयोजित करने के लिए पोस्टल बैलेट नोटिस के साध-साथ रिपोट ई-वोटिंग के संबंध में निर्देश ई-मेल के माध्यम से उन सभी सरस्यों को जिनका ई-मेल पता कंपनी के पास या डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस या पेसर्स अभिप्रा कैंपिटल लिपिटेड ('आर एंड टीए') रजिस्ट्रार और कंपनी के शेक्स ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत है और जिनके नाम 07 जुलाई 2023 ("कट-ऑफ डेट") के अनुसार सदरयों के रिजरटर/लाभार्थी खामियों की सूची में दर्ज हैं 11 जुलाई 2023 को भेजने की प्रक्रिया पूरी हो गयी है। नोटिस कंपनी की वेबसाइट (www.aplapollo.com) रटॉक एक्सवेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com एव www.nseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिपिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट (www.evotingindia.com)

सरस्य यह भी ध्यान रूँ कि उपरोक्त एमसीए परिपन्नों के अनुपालन में इस नोटिस में प्रस्तावित प्रस्तावी पर सरस्यों की सहमति/असहमति का संवार केवल रिमोट ई-वॉटिंग प्रणाली के मध्यम से होगा। सभी सदरयों को सुवित किया जाता है कि

(क) रागी शेयरधारकों के लिए बाड़े वे भौतिक रूप में हों या डीमैट रूप में शेयर रखते हों के लिए ई-वॉटिंग की अवधि बुधवार 12 जुलाई 2023 को सुबह 1000 बजे शुरू होगी और गुरुवार 10 अगरत 2023 को शाम 500 बजे समान्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल हारा ई-वोटिंग मॉडचूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वक्त समय और विधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुपति नहीं दी जाएगी।

[ख] कोई व्यक्ति जिसका नाम सदरयों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी हारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रिजरटर में कट-ऑफ तारीक्ष यानी युक्रवार 07 जुलाई 2023 पर दर्ज है वह रिपोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ चठाने का डकदार डोगा।

(ग) नोटिस उन सभी सदस्यों को भेजा जा रहा है जिनके नाम 7 जुलाई 2023 को सदस्यों के रिजरटर / डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है जरो तदनुसार डाक फ्तपत्र सूचना। को केवल सूचना प्रयोजन के लिए विचार करन

[घ] कंपनी ने श्री जितन पुप्ता कार्यस्त कंपनी सविव (सरस्यता संख्या एफसीएस ५७५) सीओपी रांख्या ९२३६) को रिमोट ई-बोटिंग के मध्यम से पूरी जाक मतपत्र प्रक्रिया के पारदर्शी तरीके से रांवालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

(उ) उक्त मतपत्र / ई-वोटिंग के परिणाम कंपनी के कॉपोर्रेट कार्यालय में 12 अगरत 2023 को या चररसे पहले घोषित किए जाएंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणामों को कंपनी की वेबसाइट और सीडीएसएल की वेबसाइट पर जाला जाएगा और उन स्टॉक एक्सवेंजों को संस्वित किया जाएगा जहां कंपनी के शेक्स सूचीबद्ध हैं।

यदि अषने अपना ईमेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं किया है तो अष कृपया नीवे दिए गए निदेशों का पालन कर सकते हैं

भौतिक शेक्स्थारक- कृपया फोलियो नंबर शेवस्थारक का नाम शेवर प्रमाण पत्र की रकैन की गई कॉपी (आगे और पीछें) पैन (पैन कार्ड की संस्फ-अटेस्टेड स्कैन कॉपी) आधार (आधार कार्ड की रवप्रमाणित रकैन कॉपी) जैसे आवश्यक विवरण कंपनी को ईमेल हास investors@aplapollo.com पर और / या असटीए ईमेल rta@abhipra.com पर प्रदान करें। ंडीमैट शेयरधारक - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिरिगेंट (डीपी) के साथ अपनी ईमेल

यदि आपके पास सीडीएसएल ई-बोटिंग सिस्टम से ई-बोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या 🕏 तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या टोल फी नंबर 1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से मतदान की सुविधा से जुडी सभी ष्टिकायतों को श्री सकेश दलवी. सीनियर पैनेजर (सीडीएसएल) संटूल डिपॉजिटरी सर्विरेज (इंडिया) लिफ्टिंड एक बिंग 25वां फ्लोर फैराथन प्रयूवरएक्स फफतलाल फ्लि कंपावंड्स एनएम जोशी पार्ग लोअर परेल (पूर्व) मुंबई-400013 को संबोधित किया जा सकता है।

कृते एपीएल अयोलो ट्यूब्स लिमिटेड दीयक सी एस रधानः दिली

भारतीय स्टेट बैंक आरएसीसी लोहाघाट ( 62353 ) आरबीओ-3, एओ 7 हल्द्वानी मीना बाजार लोटाघाट, चम्पावत, उत्तराखंड

[नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)] जैसा कि, वित्तीय परिराप्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्पाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अभिनियप, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के प्रापिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम ७ के साथ पिटत भारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 28.02.2023 जारी कर ऋगभारकों श्रीमती हेमा कालरा, पुत्री श्री गोबिन्द लाल कपूर को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि रु. ६,19,643.387- ( रु. छः लाखा उन्नीस हजार छः सौ तैतालिस पैसे अइतीस मात्र )-28.09.2022 से उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणभारक इस राशि को बापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुडारा ऋणभारक तथा आप जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 7 जुलाई, 2023 को अभोहरुताभरी ने उकत नियपावली के नियप 8 के साथ पटित अभिनियम की भारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित राप्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋगभारकों/सह-ऋगभारकों तथा आप जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सप्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन राप्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. ६,19,643.3B/- (रु. छः लाख उन्नीस हजार छः सौ तैतालिस पैसे अइतीस मात्र)+ 28.09.2022 से उस पर ब्याज तथा उस पर लागत आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्न

ऋणभारक का भ्यान प्रतिभूत परिसप्पत्तियों को विपोचित करने के लिये उपलब्ध सपय के संदर्भ में अपिनियप की भारा 13 की डप-भारा (७) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पति का विवरण

सम्पत्ति के स्वामी: श्रीपती हेपा कालरा

पलैट नं. २/१७ए, जीएफ सेक्टर-२, राजेन्दर नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-२०१००१ में शापिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहरी: उत्तर: प्लॉट नं. २/१७, दक्षिण: प्लॉट नं. २/१७, पुर्वः सर्विस लेन, पश्चिपः 60 फीट चौडा रोड।

गयिकत अधिकारी MIN: 12.07.2023 भारतीय स्टेट बैंक स्वानः लोहाघाट

### सूचना

प्रपत्र सं. एनसीएलटी ३ए याचिका के विवरण का विज्ञापन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ में कंपनी वाचिका सं. सी.पी. (सीएए) -23/सीएचडी/एचआरवाई/2023 कंपनी आवेदन सं. सी.ए. (सीएए) नं.

04/सीएचडी/एचआरवाई/2023 से संबद्ध तथा निम्नलिखित के समामेलन और ठहराव के मामले में: कम्पनी अधिनियम, 2013

और निम्नलिखित के मामले में:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 एवं अन्य प्रावधानों जैसा प्रयोज्य हो तथा कम्पनी (संझौता, ठहराव एवं समामेलन) नियम, 2016 के मामले में

और निम्नलिखित के मामले में:

समामेलन तथा ठहराव की योजना और निम्नलिखित के मामले में:

लेक्ट्रक्स ईवी प्राइवेट लिमिटे इ (सीआईएन U31100HR2012PTC103076), पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 221, उद्योग विहार, चरण 1, गुड़गांव-122016, हरियाणा, कंपनी के अधिकृत इस्ताक्षरकर्ता श्री प्रशांत अग्रवाल के माध्यम से

.... याचिकाकर्ता अन्तरक कम्पनी

के साथ प्राइवेट लिमिटे इ

(सीआईएन: ई-वेहिकल्स U31100HR2017FTC101950), पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 221, उद्योग विहार, चरण 1, गुड़गांव-122016, हरियाणा, कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री प्रशांत अग्रवाल के माध्यम से

> ...... बाचिकाकर्ता अन्तरिती कंपनी याचिका का सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत 13 अप्रैल, 2023 को (i) लेक्ट्रिक्स ईवी प्राइवेट लिमिटेड (''याचिकाकर्ता अन्तरक कम्पनी'') तथा (ii) लेकिट्रक्स ई-वेहिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (''याचिकाकर्ता अन्तरिती कंपनी'') द्वारा संयुक्त रूप से संशोधन सहित या रहित प्रस्तावित समामेलन तथा ठहराव की योजना के लिए अनुमोदन चाहती है और उक्त याचिका सुनवाई के लिए 25 सितम्बर, 2023 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चण्डीगढ़ के समक्ष निर्धारित की

उपर्युक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ताओं के पास, स्वयं या अपने वकील द्वारा हस्ताक्षरित, अपने पूरे नाम और पता के साथ अपने इरादे की सूचना इस प्रकार भेजनी होगी ताकि याचिकाकर्ता कंपनी के अधिवक्ताओं के पास उक्त कंपनी याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से अधिकतम 02 (दो) दिन पहले तक पहुंच जाए। जहां वह उक्त कंपनी की याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार या अपने शपथपत्र की प्रति ऐसी सचना के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

कंपनी के याचिका की एक प्रति इसके इच्छुक व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जायेगी।

स्थान : गुरुग्राम

तिथि : 12 जुलाई, 2023 हस्ता.

संजीव जैन

नामांकन सं. डी-1862/2005

पीआरए लॉ ऑफिसेस डब्ल्यू-126, ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली-110048 sanjeev@pralaw.in

दीपक सूरी/के.वी. सिंघल नामांकन सं. P/1075/1991 / PH/5156/2019 एडवोकेट्स **36.** सेक्टर 9

चण्डीगढ भारत 160009 मोबाइल : +91 981400747 011-40676723

सर्कल ऑफिस:

सरफेसी अधिनियम के प्रतिभृति ज्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6 व 9 के साथ पठित नियम 6(2) व 8(6) के अधीन सामान्य जनता और कर्जदारों, रेहनकर्ता तथा गारंटरों के लिए सांविधिक 15/30 दिनों (यथा लागू) बिक्री सुचना

### विद्युत (सामान्य) निर्माण, चेन्नई एम्मोर निविदा सूचना सं.

भारत के राष्ट्रवर्ति के लिए और उनकी ओर से निर्माण / दक्षिणी रेलवे / एरमोर, चेन्नई-800008 हार। निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित हैं।

कार्य अनुबंध।

निविदा सूचना संख्या और दिनांकः ई- सीएन-एमडीय -ईओटी1-2023-24 दिनांक 07 07 2023

1. समापन की अविधः ६ पहीने निविदा प्रयत्न की सागतः श्रूत्य

4. बयाना पारि। जमा (ईएमरी): 82.29.70000 04/08/2023 को अपराह 1500 बजे। 04/08/2023 को अपराह 1530 बजे।

देखी जा सकती है।

Follow us on: twitter.com/GMSRailway

रेगलेटरी अथॉरिटी, गुरुग्राम

प्रपत्र सं. आईएनसी- 26

हरियाणा रियल एस्टेट

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] दिल्ली राज्य से तेलंगना राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के

केन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) निवमादाली, 2014 के निवम 30 के उप-निवम (5) के वलॉज (ए) के मामले में

मामले में: टावर विजन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, CIN: U64203DL2006PTC145455

सावंजनिक सचना

यह सार्वनिक सूचना में "एएमबी इन्फ्रावेंचर्स प्राइवेट

लिमिटेड" "प्रमोटेर" द्वारा सेक्टर 92, गुरुग्राम मे

विकसित किए जा रहे प्रोजैक्ट "एएमजी सेल्फी स्ट्रीट"

के आवंटियों की सचना के लिए है। प्रोजैक्ट को अंतरिम

हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑधोरिटी,

पंचकुला ("अंतरिम प्राधिकरण") द्वारा पंजीकरण

संख्या 80 OF 2017 दिनांक 23.08.2017 वे

यह भी सचित किया जाता है कि निरदेशक, नगर एव

ग्राम आयोजना विभाग (डीटीसीपी) ने संशोधित भवन

योजनाओं के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए

समाचार पत्र के माध्यम से सभी संबंधित आबंटीयों र

आपत्तियां आमंत्रित करने के साध-साध पंजीकत डाव

के माध्यम से पत्र भेजकर और उस पर विचार करने

के बाद संशोधित भवन योजनाओं को मेमो नंबर ZP-

1107/PA(DK)/2022/34175 दिनांक 14.11.2022

द्वारा मंजुरी दी है। इसके बाद, प्रमोटर ने प्रोजैक्ट वे

पंजीकरण के विस्तार के लिए हरियाणा रियल एस्टेट

रेगुलेटरी ऑधोरिटी, गुरुग्राम को आवेदन किया है ।

रियल एस्टेट रेगलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, 201

की धारा 14(2)(II) के प्रावधानों के अनुसार

परियोजना की स्वीकृत योजना में किसीं भी

बदलाव या परिवर्धन के लिए कम से कम दो

तिहाई आवंटियों की लिखित सहमति की

आवश्यकता होती है। प्रमोटर ने भवन योजनाओ

में संशोधन के लिए आवंटियों की लिखित सहमति

प्रस्तत की है, जो कल आवंटियों की संख्या का दं

हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, गुरुग्राम के

कार्यालय में संबंधित योजनाएं, स्वीकृतियां, सहमति

और आवेदन के दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई

भी संबंधित आवंटी 18.07.2023 तक आपत्तियों के

लिए, यदि कोई हो, कभी भी कार्य दिवस पर

कार्यालय समय के दौरान यानी सुबह 10.00 बजे से

शाम 4.00 बजे तक देखा जा सकता है। यह

सार्वजनिक सचना प्राधिकरण के अनमोदन और महर

तिहाई से अधिक है।

के अधीन दिया गया है।

दिनांक: 12.07.2023

तहत पंजीकत किया गया था।

जिसका पंजीकृत कार्यालय एल-१ए, हीज खास एन्यलेव,

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के अंतर्गत दिल्ली राज्य में एल-2ए, हौज खास ए-क्लेव, नई दिल्ली-110016 से कम्पनी रजिस्ट्रार, हैदराबाद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तेलंगना राज्य में एच. नं. 37-2, प्लॉट नं. 332, 2रा तल, मणि मैंशन, डिफेंस कॉलोनी, सैनिकपुरी, स्किन्दराबाद, तेलंगना-500094" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए टावर विजन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ("कम्पनी") को सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार 7 जुलई, 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपित के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, मं. दीन दबाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

टावर विजन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के लिये तथा उसकी ओर से अंकुर श्रीवास्तव हस्ता./

तिथि: 11.7.2023 निदेशक स्थानः दिल्ली DIN: 06750010

# दक्षिण रलव

ई सीएन एमडीयू ईओटी1-2023-24

दिनांक 07/07/2023

उप मुख्य विद्युत अभियंता/सामान्य/ कार्य का नाम: आरबीएनएल हारा निष्पादित दो

हरीकरण कार्य के तहत एमडीयू-एमईजे-टीएम और एनईजे टेन-एनसीजे खण्डों में एलयूएस का निर्माण करके मानवयुक्त एलसी का उ-मूलन सहित एल यूएस (सीमित सबवे का उपयोग) में जमा बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए डीजल और इलेक्ट्रिकल संचालित पंप (48 नग) का प्रावधान, प्रकाश ध्यवस्था और बिजली आपूर्ति ध्यवस्था आदि-

2 कार्य की अनुमानित सागतः रु 1.57.45.712.29

६ निविद्या बंद होने की तिदि एवं समयः ६ निविद्य खुसने की तिथि एवं समय

पूर्ण जानकारी www.ireps.gav.in पर

लिंगः महिला, आयुः 15 वर्ष कदः 5' फीट, रंगः सांवला, चेहराः गोल, शरीरः पतला, **पहचान चिन्हः** नाक पर तिल, **पहनावाः** काले रंग का सुट व सलवार

शहनाज

जिसका हुलिया नीचे दिया गया है:--

फैक्स नं: 011-24368639

दिनांकः 11 जुलाई, 2023

स्थानः नई दिल्ली

और पैरों में चप्पल पहने हुए है। अगर किसी को इस गुमशुदा / अपहृत लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले तो निम्नलिखित पतों पर सुचित करें:-थाना प्रभारी

भारत निधि लिमिटेड

सीआइएन नंबर - U51396DL1942PLC000644

पंजीकृत कार्यालयः पहली मंजिल, एक्सप्रेंस बिल्किंग, 9-10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग,

नई दिल्ली -110 002

फोन नंबर: 011-43562982, ई-मेल आईडी: bharatnidhi1@gmail.com

विषय: इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) को कंपनी के इक्विटी शेवरों का इस्तांतरण

शेयरबारकों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के अनुसार

इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (अकाउन्टिंग, ऑडिट,ट्रान्स्फर एन्ड रिफन्ड) रूल्स, 2016 (EPF रूल्स)

जो कि समय—समय पर संशोधित किया गया है. जन सभी शेयरों के संबंध में. जिनके लामांश का शेयरधारकों द्वारा

7 (सात) लगातार वर्षों तक या उससे अधिक का मृगतान या दावा नहीं किया गया है. उन्हें कंपनी द्वारा इन्वेस्टर

संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस कंपनी के रिकॉर्ड में उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर भेजे गए हैं.

IEPF को शेयरों के हस्तांतरण की नियत तारीख 2 नवंबर, 2023 है। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि

वे 2 नवंबर, 2023 को या उससे पहले दावा ना किये गये लागांश का दावा करें अन्यथा उनके शेयर बिन

संबंधित शेयरधारक IEPF प्राधिकरण से ई-फॉर्म नंबर IEPF-5 में उपरक्त IEPF रूल्स के तहत एक आवेदन

करके वापस शेयर दावा करने के हकदार होंगे, और यह IEPF वेबसाइट यानी www.iepf.gov.in पर भी

यदि शेयरधारको को IEPF रूल्स से सम्बन्धित कोइ संशय है, तो वे अपना प्रश्न कंपनी को मेल आईडी:

bharatnidhi1@qmail.com पर भेज सकते हैं या मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

(रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट), D-153/A, फर्स्ट पलोर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली

गुमशुदा/अपहृत की तलाश

सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि एक लडकी

(फोटो में दर्शायी गई) जिसका नाम शहनाज पुत्री

मौहम्मद जमशेद निवासी ई-13 / ए-507, झुग्गी

न्यू सीलमपुर, दिल्ली जो दिनांक 20.12.2022 को

करीब 12:00 बजे थाना क्षेत्र सीलमपुर, दिल्ली से

लापता / अपहृत है। इस संदर्भ में एक एफआईआर नं.

563/22 दिनांक 26.12.2023 थाना सीलमपुर,

दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। स्थानीय पुलिस ने इस

लडकी का पता लगाने के लिए गंभीर प्रयास किए

लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।

भारत निधि लिमिटेड के लिए

ICSI मेम. नं. : F5318

अमिता गोला - कंपनी सचिव

-110020, फोन: 011—40450193—97, मेल आईडी: <u>parveen@skylinerta.com</u> से संपर्क कर सकते हैं ।

जिसमें अन्य बातों के साथ IEPF को हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों का विवरण प्रदान किया गया है।

एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में IEPF रूल्स के तहत हस्तांतरित किया जाएगा।

किसी और नोटिस के IEPF खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे।

वेबसाइटः http://cbi.nic.in ई-मेलः cic@cbi.gov.in ਟੇਲੀ. ਜੰ.: 011-24368638/24368641

थानाः सीलमपुर, दिल्ली फोनः 011-22832500, 22857121 मोबाइल: 8750870721 DP/7186/NE/2023

प्रपत्र-3 विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित) वाद सं. ओए/483/2023

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसुली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन Exh. No. 19097

डण्डियन बैंक

मैसर्स हेंड एंटरप्राइजेज और अन्य संजय राणा

 मैसर्स हेंड एंटरप्राइजेज और अन्य संजय राणा पुत्री/पत्नी/पुत्र संजय राणा, मैसर्स हेंड एंटरप्राइजेज, बेसमेंट, 3553/एस, शीतला माता रोड, गुरुग्राम हरियाणा इसके प्रोपराईटर द्वारा श्री संजय राणा, गुड़गांव,

(2) श्री संजय राणा, पुत्र श्री उदय सिंह निवासी मकान नं. 1068/जे/1 दयानंद कॉलोनी, गुड़गांव हरियाणा (3) श्रीमती माया देवी पत्नी श्री उदय सिंह निवासी मकान नं. 1068/जे/1 दयानंद कॉलोनी, गुडगांव हरियाणा जबकि, औए/483/2023 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष **01.07.2023** को प्रस्तुत किया

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. **47,93,955/-** के ऋण की वसूली के लिए आपके विरूख दाखिल किए गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अविनियम की घारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए;

(ii) मूल आवेदन के ऋमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तृत करें: (iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध मे

(iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभृति हित सुजित किया गया है तथा ∕अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व

संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है;

अनुमति के विना, नहीं करेंगे: (v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभृत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की विक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभृति हित धारक बैंक

अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेत् जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक 19/10/2023 को पूर्वा. 10.30 वजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन

की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा मेरे हस्ताक्षर और इस न्यावाधिकरण की मोहर लगाकर 07.07.2023 को दिवा गया। अधिकारी के हस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेतु अधिकृत

कब्जा सूचना

DCB BANK (अचल सम्मत्ति के लिये) जैसा कि, वित्तीय परिसप्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्पाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन (डितीय) अध्यादेश अभिनियम, 2002 (2002 के अध्या. 3) के अंतर्गत डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राप्तकृत अपिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित्(प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम ९ के साथ पटित भारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीहरताक्षरी ने मांग सूचना नीचे तालिका में वर्णित रूप में जारी कर नीचे वर्णित ऋगधारकों/सह-

ऋगभारकों/गारंटरों को उक्त सुचना की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋगभारक तथा सह-ऋगभारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहें, अतः एतद्डारा ऋगभारक, सह-ऋगभारक/गारंटर तथा आप जनता को सूचित किया जाता है कि जीचे वर्णित तिथि को अभोहस्ताक्षरी ने उक्त अभ्यादेश के नियम ९ के साथ पिटत अभिनियम की भारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभोहरुताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित राप्पत्ति का कच्ना कर लिया है।

विशेष रूप से ऋगभारकों. सह-ऋगभारकों/गारंटरें तथा आप जनता को एतदडारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्त का व्यवसाय न करें तथा ਵਰ ਸ਼ਹਾਰਿਕੀ ਕਰ ਕਿਸੀ ਪੀ ਰਾਲ ਕਰ ਕਰਸਾਹ ਸੰਭਾ ਸਚਰਾ ਸੇ ਰਹਿੰਗ ਸੀ। ਰਾਸ਼ ਵਸ ਦਾ ਆਏ ਨੇ ਕਰਤ ਨੇ ਲਿਹੇ ਟੀਸੀਰੀ ਹੈਂਕ ਇਹ ਨੇ ਚਾਤ ਨੇ ਅਪੀਰ ਦੇਸਾ।

क्र. स	अनुबंध सं.	ब्र्गथास्य सत-ब्र्गथास्य, गाँटरी तथा कार्गी उन्तरीयकारियों का नाम	तिथि एवं पीग सूचना की राशि	सम्पत्ति का दिव्हारण	कब्बा की तिथि
:1	DRHLMEE00445299	श्रीबृत पाल रिक् तथा पृश्रीशीमा	26,09,2022/ रु. 13654 16,29/- 26,09,2022 को बकाया	मकान स. 22. खसरा न. 1194/1 एव 1194/2. गोल्डन एन्वलेव. सरधाना. दौराला रोड. मेरठ. उत्तर प्रदेश-250342	06.07.2023
2	DR SBMEE00446439, DNPLMAL00476755 वमा DRBLMEE00524855	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26.09.2022 रु. 1349533.55/ 26.09.2022 को बकाया	खासरा न. 3144 एम एवा 2763/1 एवं 3138 एम मर सम्पति. उपर गार्डन कॉलोनी. नूर नगर रोड. मेरठ. उत्तर प्रदेश-250002	06.07.2023

### दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

र्ड-निविदा सूचना

निविदा सूचना संख्याः कॉम/सी/जी/आर/ई-नीलामी/ई-1078117 दिनांक: 10.07.2023 रायपुर मंडल से आय एवं लीजिंग करार हेतु ई नीलामी निम्नानुसार आमंत्रित है**ः** 

असेट्स विवरण/नीलामी तारीख और समय ड्यूल डिस्प्ले इन्फॉर्मैशन सिस्टम स्क्रिन लगाने हेतु निविदा (1) भाटापारा स्टेशन (20.07.23 को 15:00 से 15:30 तक) (2) भिलाई पॉवर **हाउस स्टेशन** (20.07.23 को 15:00 से 15:40 तक) (3) तिल्दा स्टेशन (20:07:23 को 15:00 से 15:50 तक) (4) **रायपुर स्टेशन** (20.07.23 को 15:00 से 16:00 तक) (5) **दुर्ग स्टेशन** (20.07.23 को 15:00 से 16:10 तक) सभी ई-नीलामी अधिसूचना का विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड किया गया है।

सहायक वाणिज्य प्रबंधक द.पू.म.रेल्वे, रायपुर पीआर/आर/सीनि जी सी एम/एपी/88 f South East Central Railway 🗷 @secrail



आईडी और पोबाइल नंबर अपडेट करें।

# punjab national bank

बिक्री वेबसाहर https://mstcecommerce.com पर प्रदान किए गए ई-नीलागी प्लेटफार्ग के गाध्यम से की जाएगी।

(कम्पनी सचिव)

......Together for the better

फाजिल्का

प्रतिभृतित संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री 31.07.2023 को अप. 02.15 बजे से अप. 04.15 बजे तक

ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंग

चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम ७ व ९ के साथ पठित नियम ७(2) व ९(७) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति व्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत चल/अचल संपत्तियों की विक्री के लिए ई-नीलामी विक्री सूचना। जनता को सामान्य तौर पर और कर्जदारों, रेहनकर्ताओं व गारंटरों को विशेष तौर पर

एतद्डारा सुचना दी जाती है कि नीचे वर्णित प्रतिभृतित ऋणदाता को रेहन/प्रभारित चल/अचल संपत्ति जिनका कब्जा पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी डारा लिया गया है, प्रतिभृतित ऋणदाता नीचे वर्णित प्रतिभृतित ऋणदाता को देय नीचे वर्णित अनुसार राशियों की वसूली के लिए "जैसी है जहां है", "जैसी है जो कुछ हैं" और "वहां जो कुछ है" आधार पर बिक्री करेगा। ज्ञात ऋणप्रभारों, यदि कोई है, के साथ चल/अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण नीचे वर्णित किया गया है:

केवाईसी दस्ताकेज व ईएमडी (ऑनलाइन) की पोर्टल https://mstcecommerce.com पर प्रस्तृतीकरण/पृष्टिकरण की ऑतिम तिथि व समय 29.07.2023 को अपग्रह 2.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व। हैं-नीलामी की तिथि और समय : 31.07.2023 को अपराह्न 02.15 बजे से सार्य 04.15 बजे तक।

हंएमडी और केवाहंसी पोर्टल https://mstcecommerce.com के माध्यम से ऑनलाईन की जाएगी। ्रमाह्सरीसी लिगिरेड हेल्पडेस्क संख्या ०३३-२२९०१००४/१६००१०२५०४०/०११-४११०६१३१ या १८००-१०३-५३४२ या ईमेल ibapiop@mstcecommerce.com या ibapifin@mstcecommerce.com पर मेल करें।

्र यह प्रतिनिधि की नियुक्ति से बैंक से खुली है और ई-नीलापी में स्वयं बोली दे और भाग ले सकते हैं। ई-नीलापी जैसी है जहां है और जैसी है जो कुछ है पर आयोजित की जा रही है।

न्यूनतम बोली वृद्धि राशि, संपत्तियों की आरक्षित कीमत रु. 100.00 लाख तक है रु. 10,000/ - तक है। उसके गुणजों में और आरक्षित कीमत संपत्तियों के लिए रु. 100.00 लाख से कपर है रुपये 1 लाख या इसके गुणजों में है। इसमें वर्गित संपत्ति पर कोई ऋणभार बैंक/प्रतिभृतित ऋणदाता को ज्ञात नहीं है।

नीलापी पर रखी संपत्तियों का निरीक्षण की स्वीकृति इच्छक बोलीदाता को शाखा प्रबंधक से पूर्व सलाह से किसी भी कार्यदिवस पर 19.07.2023 व 20.07.2023 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच स्थल पर दी जाएगी। 10. इच्छुक बोलीदाता/खरीददार को अपने पोबाइल नंबर और ई-पेल आईडी का प्रयोग करते हुए पोर्टल https://mstcecommerce.com पर पंजीकृत करने का अनुरोध किया जाता है। आगे उन्हें केवाईसी प्रस्करण के लिए उपरोक्त पोर्टल पर केवाईसी पुष्टकरण के लिए उपरोक्त पोर्टल पर केवाईसी पुष्टकरण के लिए उपरोक्त पोर्टल पर केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने हैं। एक बार केवाईसी दस्तावेज ई-नीलापी सेवाप्रदात्ता द्वारा पुष्टिकृत किए जाते हैं (दो-तीन कार्यदिवस लग सकते हैं) तक इच्छुक बोलीदाता/खरीददारों को https://mstcecommerce.com से चालान जनरेट करने के बाद पोर्टल के पाध्यप से ई-नीलापी की तिथि समय से व्र

पूर्व अग्रिम में पूर्ण करनी होगी। 11. राफल उच्चतम बोलीदाता को ईएमडी रामायोजित करने के बाद बोली/बिक्की राशि का 25% तुरंत उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना आवश्यक है और शेष 75% बिक्की मूल्य का या बिक्की के 15वें दिन से पहले या बोलीदाता और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में सहमति के अनुसार विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा। 12. बिक्री की विरुत्त नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.ibapi.in, https://www.mstcecommerce.com, www.pnbindia.in का संदर्भ लें या रमारे कार्यालय, फाजिल्का में फोन नंबर 01638-500164, या मुख्य प्रबंधक श्री सारिल मुंजाल, मोबाईल नंबर 97837-06366, ईमेल आईडी: cs8225@pnb.co.in संपर्क करें।

शाखा का नाम क्र. सं. नौटिस की तिथि यू/एस 13(2) दाख्य आरक्षित मूल्य आईपी की क्र. संपत्तियों का विवरण खाते का गाम डिमोड राशि की प्रकृति धरोहर राशि जमा संपति आईडी मालिक /निदेशक/भागीदार/गारंटर करुने की तिवि यू/एस 13(4) 000100- अबोहर मेन 15.04.2021 कपांक 1. एवीआर किन्नु वैक्रिशंग प्लांट गांव बुर्व पुहर प्राप आरोप डोडा फनी अपिश डोडा के स्वापित्व में गांव बुर्व पुहर रेक्ट संख्या 65 किला संख्या 20/2/1(3-19), 21/2(6-9) खेक्ट संख्या 245/216 पिनट 1. प्रतीकात्मक 80.00 लाख रु. 179558103.22 T. 2023/187 डोडा वाईन्स हानौनी संख्या 330 एनबी संख्या 120 बपाबंदी 2013- 14 पांच बुर्ब पुहर असर आरटीडी संख्या 2139 दिनांक 15.10.2015 में रियन संपत्ति आणिन्यिक भूमि रक्तमा 10 कनाल 13 मरला के सभी अनिवार्य अंग। 01.04.2021 से प्रमाणी म्याज ण प्रमार कब्जा PUNB344900DODA01 1. श्री शिष साल डोडा पुत्र रुपील दास डोडा 2. श्रीपती नीता 8.00 लाख रु. 23.12.2021 डोडा पत्री जीगिंदर पाल 3. श्रीमती सुनीता डोडा पत्री श्री शिष लाल डोडा 4. श्री गगन डोडा पुत्र शिष लाल डोडा 5. श्री राहुल बाधाबा पुत्र रिष बाधाबा 6. सुन्नी अफशी डोडा पत्री अपित डोडा 7. सुन्नी शिषांगी डोडा पुत्री शिष लाल डोडा

तिथि: १०.०७.२०२३ www.readwhere.com